



State of California—Health and Human Services Agency
Department of Health Care Services



GAVIN NEWSOM
GOVERNOR

दिनांक

आपके **Medi-Cal** के बारे में जरूरी समाचार:
सुनिश्चित करें कि आपकी जानकारी अपडेटेड है!

प्रिय Medi-Cal सदस्य,

अगर काउंटी को आय में बढ़ोतरी, नौकरी में बदलाव या गर्भावस्था जैसे परिवर्तनों की सूचना प्राप्त होती है तो ऐसे Medi-Cal लाभार्थियों का रिकॉर्ड काउंटी अपडेट कर रही है। काउंटी से आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को Medi-Cal कवरेज के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाला पत्र अगर प्राप्त हुआ है, तो कृपया उसका जवाब जानकारी के साथ दें।

यदि अब आप इसके लिये पात्र नहीं हों, तो भी आप COVID-19 PHE के दौरान अपने Medi-Cal कवरेज को बरकरार रख सकते हैं। जब Covid-19 PHE खत्म हो जाएगी तो आप अभी भी निःशुल्क या कम लागत वाले Medi-Cal के लिए पात्र हैं या नहीं इसकी जाँच काउंटी करेगी।

आपकी नवीनतम वर्तमान जानकारी हमारे पास है यह सुनिश्चित करें -

Covid-19 PHE खत्म होने के बाद अपना Medi-Cal कवरेज बरकरार रखने में निचे दिये गये चरण आपकी मदद कर सकते हैं:

- **अपनी संपर्क जानकारी अपडेट करें** - आपका पता, फोन नंबर और ईमेल सहित आपकी संपर्क जानकारी बदल गई है इसलिए यह पत्र आपको भेजा गया था। Medi-Cal की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचाने के लिये काउंटी को इस जानकारी की आवश्यकता होगी।
- **होने वाले परिवर्तनों की जानकारी** अपने स्थानीय काउंटी कार्यालय को दें। यदि कोई गर्भवती हो जाती है, कोई आपके घर में आता है या घर से बाहर जाता है, आय में बदलाव होता है या कुछ और जो आपकी Medi-Cal पात्रता को प्रभावित कर सकता है यह सब इसमें शामिल है। आप इसके द्वारा बदलाव की जानकारी दे सकते हैं:
 - संलग्न सूची के नंबर पर अपने काउंटी को कॉल करें।
 - CoveredCA.com, MyBenefitsCALWIN.org या BenefitsCal.org पर अपने खाते में लॉग इन करें।
 - अपने काउंटी को एक पत्र भेजें। (संलग्न सूची देखें)।
 - सीधे अपने काउंटी कार्यालय में जाएँ।

- यदि आपको अपने काउंटी से कोई पत्र प्राप्त होता है, तो **जानकारी के तहत पूछे गये सभी सवालों का जवाब दें।**

आपको इस पत्र का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है-

यह पत्र आपको इसके बारे में सुनिश्चित करने के लिये है कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी अपडेटेड रखना और आपके काउंटी में किसी भी परिवर्तन की जानकारी देना क्यों महत्वपूर्ण हैं। यह किसी भी तरह की कार्रवाई के लिये दी गई सूचना नहीं है। अपने Medi-Cal पर कोई भी कार्रवाई करने से पहले आपको कार्रवाई की सूचना प्राप्त होगी। यह आपके अपील अधिकारों को भी स्पष्ट करेगा।

सवाल ?

यदि आपके कोई सवाल हैं या आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए तो अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न पढ़ें या अपने स्थानीय काउंटी कार्यालय को संलग्न सूचि में दिये गये फोन नम्बर्स पर पर कॉल करें या ऑनलाइन यहाँ देखें <http://dhcs.ca.gov/COL>

यदि आपको अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में सहायता की आवश्यकता है, तो फ़ोन नंबरो की संलग्न सूची देखें जिसमें आपको मुफ्त भाषा समर्थन सेवाओं से मदद मिलेगी। इस पत्र को पढ़ने में आपकी सहायता के लिए एक दुभाषिया शामिल है।

धन्यवाद,

Department of Health Care Services
California राज्य

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) Medi-Cal और COVID-19 के बारे में

1. सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (PHE) के दौरान, क्या मेरा Medi-Cal COVID-19 समाप्त हो जाएगा?

COVID-19 के कारण फेडरल सरकार ने 2020 में PHE घोषित किया। अधिकांश Medi-Cal सदस्यों के लिए, PHE के दौरान Medi-Cal समाप्त नहीं होगा। इसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं, जिसके लिये आप प्रश्न 2 पढ़ सकते हैं।

2. मैं PHE के दौरान Medi-Cal कब खो सकता हूँ?

अधिकांश सदस्य PHE के दौरान कवरेज नहीं खोएंगे। हालाँकि, कुछ अपवाद हो सकते हैं। Medi-Cal कवरेज को समाप्त किया जा सकता है यदि आप:

- मर जाते हो
- राज्य से बाहर चले गये हो तो
- अगर आप Medi-Cal नहीं चाहते हैं और आपने Medi-Cal कार्यकर्ता को बताया हो तो
- प्रशासनिक त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण Medi-Cal है

यदि आपका Medi-Cal किसी भी कारण से समाप्त हो गया है, तो सुनिश्चित करने के लिए अपने काउंटी को कॉल करे और पूछें कि क्या यह गलती से तो समाप्त नहीं हो गया है।

3. मुझे मेल द्वारा प्राप्त Medi-Cal नवीनीकरण पैकेट का क्या करना चाहिए?

नवीनीकरण फ़ॉर्म को पूरा करें और अनुरोधित जानकारी प्रदान करते हुए नवीनीकरण पैकेट वापस काउंटी को भेजें। आप तब तक Medi-Cal कवरेज के लिए पात्र होंगे जब तक कि आपके नवीनीकरण में देरी होने या आप अपनी व्यक्तिगत या घरेलू जानकारी में परिवर्तनों की रिपोर्ट करने पर PHE की समय सीमा समाप्त नहीं हो जाती।

4. मुझे अपने काउंटी को रिपोर्ट करने के लिए किन परिवर्तनों की आवश्यकता है?

किसी भी परिवर्तन की रिपोर्ट करें जो यहीं तक सीमित नहीं है:

- संपर्क जानकारी (पता, फोन नंबर, ईमेल पता, आदि)
- आय
- आपके साथ कौन रहता
- हैजिन लोगों का दावा आप टैक्स आश्रितों की तरह करते हैं।

5. मैं अपने काउंटी में परिवर्तनों की जानकारी कैसे दे सकता हूँ?

आप परिवर्तनों की जानकारी स्वयं रूप से, मेल द्वारा, फोन द्वारा या ऑनलाइन दे सकते हैं। आप अपना स्थानीय काउंटी कार्यालय का सम्पर्क क्रमांक संलग्न सूची पर या ऑनलाइन <http://dhcs.ca.gov/COL> प्राप्त कर सकते हैं।

यदि आप फ़ोन द्वारा परिवर्तनों की जानकारी देते हैं, तो आपका काउंटी रिन्युअल फ़ॉर्म को पूरा करने और हस्ताक्षर की आवश्यकता हो तो फ़ोन द्वारा हस्ताक्षर करने में आपकी सहायता करेगा।

यदि आपको परिवर्तन के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तो आप काउंटी को फोन कॉल या एक लिखित रूप से स्टेटमेंट दे सकते हैं।

6. मेरे प्रोत्साहन भुगतान, COVID-19 अनुदान और वसूली छूट मेरे Medi-Cal को कैसे प्रभावित करेंगे?

PHE के दौरान आपको प्राप्त होने वाले भुगतान आपकी Medi-Cal पात्रता को प्रभावित नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप PHE की अवधि समाप्त होने के बाद इनमें से कुछ भुगतानों के लिए प्रति व्यक्ति \$2,000 से अधिक या \$3,000 से अधिक की बचत करते हैं, तो आपका Medi-Cal प्रभावित हो सकता है। अपने काउंटी से आप पूछ सकते हैं कि क्या इससे आपकी Medi-Cal योग्यता प्रभावित हो सकती है?

7. मेरे बेरोजगारी लाभ मेरी Medi-Cal पात्रता को कैसे प्रभावित करते हैं?

अपने स्थानीय काउंटी कार्यालय को आपको मिलने वाले सभी बेरोजगारी लाभों की जानकारी दे। अगर आपका बेरोजगारी लाभ समाप्त हो गया है या जल्द ही समाप्त हो जाएगा तो हमें इसके बारे में बताएं। महामारी के दौरान बेरोजगारी लाभों को आय में नहीं गिना जाता है, इसलिए अपने काउंटी कार्यकर्ता को बताएं कि आपको किस प्रकार का बेरोजगारी लाभ मिलता है।

8. अपने Medi-Cal कवरेज के संबंध में अगर मैं काउंटी कार्रवाई से असहमत हूं, तो मेरे अपील के अधिकार क्या हैं?

आपको अपने Medi-Cal कवरेज के संदर्भ में निष्पक्ष सुनवाई के लिए पूछने का अधिकार है। PHE के दौरान, आपके पास सुनवाई (हियरिंग) का अनुरोध करने के लिए काउंटी कार्रवाई नोटिस प्राप्त होने के 210 दिनों का समय होता है।

आप अपील के दौरान अपना Medi-Cal रख सकते हैं। यहां तक कि अगर सुनवाई (हियरिंग) तय करती है कि आपका Medi-Cal समाप्त हो जाना चाहिए, तब भी आप PHE के समाप्त होने तक अपने लाभों को बरकरार रख सकते हैं।

सुनवाई (हियरिंग) के लिए पूछने के लिए, नोटिस ऑफ़ एक्शन के पीछे "रिकेस्ट फॉर स्टेट हियरिंग" फॉर्म भरें। अपना पूरा नाम, पता, टेलीफोन नंबर, उस काउंटी का नाम, जिसने आपके खिलाफ कार्रवाई की, सहायता कार्यक्रम, और जिस कारण से आप सुनवाई (हियरिंग) का अनुरोध कर रहे हैं, सहित सभी जानकारी प्रदान करना सुनिश्चित करें।

अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती हैं, तो कृपया हमें अपनी पसंदीदा भाषा बताएं। सुनवाई (हियरिंग) के दौरान आपको भाषा संबंधी सहायता उपलब्ध कि जायेगी। यदि आपके पास कोई आधिकारिक प्रतिनिधि है, तो हमें उनका नाम और पता बताएं ताकि हम आपके मामले के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी उनके साथ शेयर कर सकें। काउंटी का निर्णय गलत क्यों है, यह बताने के लिए आप हमें एक पत्र भी भेज सकते हैं। अपने हियरिंग रिकेस्ट की एक प्रति अपने पास रखें।

आप निम्नलिखित पांच में से किसी एक तरीके से सुनवाई (हियरिंग) का अनुरोध कर सकते हैं:

1. नोटिस ऑफ़ एक्शन पर दिखाए गए पते पर काउंटी वेल्फेअर डिपार्टमेंट को **मेल** करें

2. या इसे **मेल** करें:

California Department of Social Services
State Hearings Division
P.O. Box 944243, Mail Station 21-37
Sacramento, California 94244-2430

3. **स्टेट हियरिंग** डिविजन को यहां फ़ैक्स करें **(833) 281-0905**

4. इसे **ऑनलाइन** California Department of Social Services (DSS) सुनवाई (हियरिंग) अनुरोध पृष्ठ: <https://acms.dss.ca.gov/acms/login.request.do> जमा करें।

5. **DSS सार्वजनिक पूछताछ और प्रतिक्रिया टोल-फ़्री लाइन पर यहां कॉल करें**

(800) 743-8525 / (TDD: (800) 952-8349)

Medi-Cal निष्पक्ष सुनवाई (हियरिंग) के बारे में अधिक जानने के लिए, आप यहां भी जा सकते हैं-: <https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/Medi-CalFairHearing.aspx>.

9. मैं PHE के दौरान अपना Medi-Cal रख सकता हूँ या नहीं यह सुनिश्चित करने के लिए, क्या मुझे अपने स्थानीय Medi-Cal काउंटी कार्यालय को कॉल करने की आवश्यकता है?

नहीं। यदि आपकी Medi-Cal पात्रता या कवरेज में परिवर्तन होता है, तो काउंटी आपसे संपर्क करेगा। यदि आप Medi-Cal कवरेज से बाहर हो जाते हैं, और आप इसे नहीं चाहते हैं, तो कृपया अपने काउंटी को कॉल करें। यदि आप किसी नए राज्य में जा रहे हैं या अपनी संपर्क जानकारी में किसी भी तरह का परिवर्तन हो या अपनी Medi-Cal योग्यता में परिवर्तनों की जानकारी देने के लिए अपने काउंटी को कॉल करना सुनिश्चित करें। यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि आपका कवरेज सक्रिय रहे और आपको आपके Medi-Cal कवरेज के बारे में जानकारी भेजे।

कुछ काउंटी Medi-Cal कार्यालय स्वयं सेवाओं के लिए बंद हो सकते हैं। आप अभी भी उनसे फोन, मेल, ईमेल या ऑनलाइन द्वारा संपर्क कर सकते हैं। आपका स्थानीय काउंटी कार्यालय नंबर संलग्न सूची पर या ऑनलाइन <http://dhcs.ca.gov/COL> पर पाया जा सकता है। या Medi-Cal सदस्य हेल्पलाइन (800) 541-5555 (TTY (800) 430-7077) पर कॉल करें। यदि आप California से बाहर हैं, तो (916) 636-1980 कॉल करें।

10. PHE के दौरान क्या मेरा Medi-Cal बदल सकता है।

हां। आप बेहतर कवरेज वाले Medi-Cal कार्यक्रम के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं। आप ऐसे कार्यक्रम के लिए पात्र हो सकते हैं जो आपकी आवश्यकताओं के लिए बेहतर रूप से उपयुक्त हो ताकि PHE समाप्त होने पर आप कवरेज न खोएं।

11. क्या PHE के दौरान मेरी लागत (SOC) या प्रीमियम (मासिक लागत) बढ़ सकती है?

नहीं। PHE के दौरान आपकी लागत या प्रीमियम का हिस्सा नहीं बढ़ना चाहिए। यदि आपके लागत प्रीमियम का हिस्सा बढ़ गया है या आप किसी प्रीमियम कार्यक्रम में चले गए हैं तो अपने काउंटी को कॉल करें।

12. यदि मैं अपने Medi-Cal प्रीमियम का भुगतान नहीं कर सकता तो क्या होगा?

यदि आप PHE के दौरान अपने Medi-Cal प्रीमियम का भुगतान करने में असमर्थ हैं, तो आप अपने प्रीमियम को माफ करने के लिए काउंटी को कॉल कर सकते हैं। आपको कोई माफ किया गया प्रीमियम नहीं चुकाना होगा।

आप PHE के दौरान भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए क्रेडिट भी मांग सकते हैं। यदि आप Medi-Cal प्रीमियम प्रोग्राम छोड़ते हैं, तो आप भुगतान किए गए प्रीमियम की वापसी का दावा कर सकते हैं।

अगर आपकी आय कम हो गई है तो काउंटी को बताएं। आप निःशुल्क Medi-Cal के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं।

प्रीमियम के बारे में प्रश्नों के लिए, **निम्नलिखित Medi-Cal प्रोग्राम फ़ोन नंबरों पर कॉल करें:**

- बच्चे और गर्भावस्था कार्यक्रम: **(800) 880-5305**
- Medi-Cal Access Program: **(800) 433-2611**
- County Children's Health Initiative: **(833) 912-2447**

सभी कॉल सेंटर सोमवार से शुक्रवार, 8a.m से शाम 7p.m तक और शनिवार सुबह 8a.m से दोपहर 12p.m तक खुले रहते हैं, सभी में TTY/TTD और भाषा सेवाएं उपलब्ध हैं।

250 Percent Working Disabled Program के लिए, प्रीमियम छूट के लिए पूछने के तीन तरीके हैं:

- कॉल करें **(916) 445-9891**, सोमवार से शुक्रवार, 8a.m. से 12p.m. और 1p.m. से 5p.m. आप अन्य भाषाओं में मदद मांग सकते हैं।
- अपना अनुरोध फ़ैक्स करें **(916) 440-5676**
- यहां ऑनलाइन पूछताछ फॉर्म भरें <http://dhcs.ca.gov/wdp>

13. अगर मुझमें COVID-19 के लक्षण हैं, तो जांच कराने में कितना खर्च आएगा? अगर मैं COVID-19 पॉजिटिव हूं, तो इलाज में कितना खर्च आएगा?

Medi-Cal के साथ चिकित्सकीय रूप से आवश्यक COVID-19 परीक्षण, स्क्रीनिंग संबंधी सेवाएं और उपचार निःशुल्क हैं। यदि आपको COVID-19 के लिए परीक्षण, परीक्षण या उपचार की आवश्यकता है, तो सेवाओं में आपातकालीन कक्ष, आपातकालीन देखभाल और प्रदाता कार्यालय का दौरा शामिल है।

14. मैं एक सीमित कार्य क्षेत्र में हूँ Medi-Cal और/या मेरी आप्रवास स्थिति सत्यापित नहीं की गई है। क्या मुझे COVID-19 से संबंधित Medi-Cal सेवाएं मिल सकती हैं?

हां। सभी Medi-Cal लाभार्थी PHE के दौरान COVID-19 परीक्षण, परीक्षण संबंधी सेवाएं और उपचार प्राप्त कर सकते हैं। सभी Medi-Cal लाभार्थी COVID-19 के लिए चिकित्सकीय रूप से आवश्यक सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वे पूर्ण दायरे में हों या Medi-Cal के प्रतिबंधित दायरे में हों। (प्रतिबंधित दायरा Medi-Cal केवल गर्भावस्था या गर्भावस्था से संबंधित और आपातकालीन सेवाएं है)। आपकी इमिग्रेशन स्थिति चाहे जो भी हो, आप Medi-Cal managed care और fee-for-service Medi-Cal दोनों में COVID-19 संबंधित सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।

फेडरल इमिग्रेशन सर्विसेज ने कहा है कि COVID-19 परीक्षण और उपचार उनके "सार्वजनिक शुल्क" परीक्षण में नहीं गिना जाता है। "सार्वजनिक शुल्क" के बारे में अधिक जानकारी U.S. Citizenship and Immigration Services वेबसाइट (<https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/public-charge>) पर उपलब्ध है।

सार्वजनिक शुल्क के बारे में अधिक जानने के लिए, आप California Health and Human Services Agency सार्वजनिक शुल्क मार्गदर्शिका (पब्लिक चार्ज गाईड) भी देख सकते हैं (<https://www.chhs.ca.gov/blog/2021/03/15/alert-important-change-to-public-charge-rule/>).

15. वैक्सीन प्राप्त करने में कौन शामिल है?

सभी Medi-Cal लाभार्थी, जिनमें सीमित या सीमित दायरे वाले Medi-Cal प्राप्तकर्ता शामिल हैं, सुरक्षित हैं और वे बिना किसी कीमत के टीका प्राप्त कर सकते हैं।

16. क्या व्यक्तियों को वैक्सीन के लिए भुगतान करना होगा?

नहीं। वैक्सीन को फेडरल सरकार द्वारा खरीदा जा रहा है और इसे किसी भी कीमत पर (Medi-Cal के साथ या बिना) इसकी आवश्यकता वाले किसी भी व्यक्ति को दिया जाएगा। आप्रवासन की स्थिति कोई मायने नहीं रखती।

17. व्यक्ति को टीका कहां मिल सकता है?

फ़ार्मसी, रिटेल क्लीनिक, प्रदाता (प्रबंधित देखभाल योजनाओं में पंजीकृत लोगों सहित), और कोई अन्य देखभाल साइट जो COVID-19 वैक्सीन प्राप्त और प्रशासित करती हैं।

अतिरिक्त जानकारी California Department of Public Health (CDPH) यहां इस वेबसाइट पर मिल सकती है:

<https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/COVID-19Vaccine.aspx>

"माई टर्न" वेबसाइट का उपयोग अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए किया जा सकता है। अधिक जानकारी यहां पाई जा सकती है: <https://myturn.ca.gov/>.

18. मुझे COVID-19 वैक्सीन के बारे में और अधिक जानकारी कहां से मिल सकती हैं?

12+ वर्ष वर्ग के आधे से अधिक कैलिफ़ोर्निया वासियों को COVID-19 वैक्सीन की कम से कम एक डोज मिली है। यह टीका सुरक्षित, प्रभावी और निःशुल्क है। आप कैसे COVID-19 महामारी को समाप्त करने में मदद कर सकते हैं इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें:

- DHCS वैक्सीन अक्सर पूछे जाक ने वाले प्रश्न
 - <https://www.dhcs.ca.gov/Documents/COVID-19/COVID-19-Vaccine-Beneficiary-FAQ.pdf>
- टीकाकरण के लोकप्रिय विषय California Department of Public Health
 - <https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/ncov2019.aspx>
- अपना टीका प्राप्त करें – Centers for Disease Control and Prevention
 - <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/your-vaccination.html>
- अपॉइंटमेंट लेने के लिए फ़ार्मसीज
 - <https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/FedRetailPharmProgVacAppt.aspx>

COVID-19 टीकों के बारे में अधिक जानकारी के लिए या अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए, माई टर्न वेबसाइट www.myturn.ca.gov पर जाएं।

या

CDPH COVID-19 हॉटलाइन **(833) 422-4255** पर कॉल करें। सोमवार से शुक्रवार, 8a.m. से 8p.m., और शनिवार और रविवार, 8a.m. से 5p.m. तक खुला रहता है।

County Social Services Agencies

If the information on this list has changed, you may verify the information in the phone directory under the county government listings.

A - L Counties

Alameda County (01)

(510) 383-8523
(888) 999-4772

Alpine County (02)

(530) 694-2235 Ext. 231

Amador County (03)

(209) 223-6550

Butte County (04)

(530) 538-7711
(877) 410-8803

Calaveras County (05)

(209) 754-6448

Colusa County (06)

(530) 458-0250

Contra Costa County (07)

Currently Enrolled
(866) 663-3225

New Application
(800) 709-8348

Del Norte County (08)

(707) 464-3191

El Dorado County (09)

(530) 642-7300

Fresno County (10)

Automated Assistance
(559) 600-1377
Call Center
(855) 832-8082

Glenn County (11)

(530) 934-6514

Humboldt County (12)

(877) 410-8809

Imperial County (13)

(760) 337-6800

Inyo County (14)

(760) 872-1394

Kern County (15)

Currently Enrolled
(877) 410-8812

New Application
(661) 631-6807

Kings County (16)

(877) 410-8813

Lake County (17)

(707) 995-4200

Lassen County (18)

(530) 251-8152

Los Angeles County (19)

Customer Service Center
(866) 613-3777
(877) 597-4777

M - O Counties

Madera County (20)

(559) 675-2300

Marin County (21)

(415) 473-3400

Mariposa County (22)

(209) 966-2000
(800) 549-6741

Mendocino County (23)

Fort Bragg Office
(707) 962-1000

Toll-Free in Mendocino
(877) 327-1677

Mendocino County (23)

(continued)

Ukiah Office
(707) 463-7700
Toll-Free in Mendocino
(877) 327-1711

Merced County (24)

(209) 385-3000

Modoc County (25)

(530) 233-6501

Mono County (26)

North County Office
(760) 932-5600

South County Office
(760) 924-1770

Monterey County (27)

(866) 323-1953

Napa County (28)

(800) 464-4214
(707) 253-4511

Nevada County (29)

(888) 809-1340
(530) 265-1340

Orange County (30)

Automated Assistance
(949) 389-8456
(714) 541-4895
Currently Enrolled
(800) 281-9799
New Application
(855) 478-5386

P - R Counties**Placer County
Human Services (31)**

(888) 385-5160

From outside of the County
(916) 784-6000**Plumas County (32)**

(530) 283-6350

Riverside County (33)Call Center – Customer Service
(800) 274-2050**S Counties****Sacramento County (34)**

(916) 874-3100

(209) 744-0499

San Benito County (35)

(831) 636-4180

San Bernardino County (36)

(877) 410-8829

San Diego County (37)

(866) 262-9881

**San Francisco
City and County (38)**

(415) 558-4700

(855) 355-5757

San Joaquin County (39)

(209) 468-1000

San Luis Obispo County (40)

(805) 781-1600

San Mateo County (41)

(800) 223-8383

Santa Barbara County (42)Access Cal Win:
(866) 404-4007**Santa Clara County (43)**Benefits Assistance Center
(408) 758-3800

(408) 758-4600

Automated Assistance
(877) 962-3633**Santa Cruz County (44)**Benefit Call Center
(888) 421-8080**Shasta County (45)**

(877) 652-0731

Sierra County (46)Loyalton
(530) 993-6721Downieville
(530) 289-3711**Siskiyou County (47)**

(530) 841-2700

Solano County (48)Benefit Action Center
(800) 400-6001Fairfield
(707) 784-8050Vacaville
(707) 469-4500Vallejo
(707) 553-5000**Sonoma County (49)**

(877) 699-6868

Stanislaus County (50)

(877) 652-0734

Sutter County (51)

(877) 652-0735

T - Y Counties**Tehama County (52)**

(530) 527-1911

Trinity County (53)

(800) 851-5658

(530) 623-1265

Tulare County (54)

(800) 540-6880

Tuolumne County (55)

(209) 533-5711

For Mailed Application
(209) 533-5725**Ventura County (56)**

(888) 472-4463

Yolo County (57)

(855) 278-1594

Yuba County (58)

(877) 652-0739